

हमारे धर्म-संस्थाओं में अक्सर यह मान लिया जाता है कि हमें अपने अंदरूनी स्वभाव को ठीक रखना है और फिर ही हमें अपने बाह्य जीवन में सुधार लाना है।

शुद्धता 110:5 (Hindi Bible की ओर से अनुवादित)

****शुद्धता के लिए हमें अपने अंदरूनी स्वभाव को ठीक रखना है और फिर ही हमें अपने बाह्य जीवन में सुधार लाना है।**

यदि हमें अपने अंदरूनी स्वभाव को ठीक रखना है तो हमें अपने अंदरूनी स्वभाव को ठीक रखना है, अर्थात् हमें अपने अंदरूनी स्वभाव को ठीक रखना है और फिर ही हमें अपने बाह्य जीवन में सुधार लाना है। “शुद्धता के लिए हमें अपने अंदरूनी स्वभाव को ठीक रखना है” – यह हमें अपने अंदरूनी स्वभाव को ठीक रखना है, अर्थात् हमें अपने अंदरूनी स्वभाव को ठीक रखना है।

शुद्धता

“शुद्धता” के लिए हमें अपने अंदरूनी स्वभाव को ठीक रखना है और फिर ही हमें अपने बाह्य जीवन में सुधार लाना है, अर्थात् हमें अपने अंदरूनी स्वभाव को ठीक रखना है और फिर ही हमें अपने बाह्य जीवन में सुधार लाना है।

शुद्धता के लिए हमें अपने अंदरूनी स्वभाव को ठीक रखना है:

“Wingulama” ni wakazi wa dunia wanao?

- Wingulama ni wakazi wa dunia wanao hujitokea kutoka maeneo tofauti tofauti ya dunia. Wanao hujitokea kutoka maeneo tofauti tofauti ya dunia. Wanao hujitokea kutoka maeneo tofauti tofauti ya dunia.
 - Wanao hujitokea kutoka maeneo tofauti tofauti ya dunia. Wanao hujitokea kutoka maeneo tofauti tofauti ya dunia. Wanao hujitokea kutoka maeneo tofauti tofauti ya dunia.
-

Share on:
WhatsApp

Print this post